

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1973/माघ 12, 1894

No. 22] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1973/MAGHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1973

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of section 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force in the State of Gujarat.

[No. F-11014/3/72-FRY/WLF.]

कृषि मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 42(अ).—त्रय प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को तारीख को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम गुजरात राज्य में प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० 11014/3/72-एफ०आर०वाई० (डब्ल्यू०एल०एफ०)]

THE WILD LIFE PROTECTION CENTRAL RULES, 1973

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Wild Life (Stock Declaration) Central Rules, 1973.

(2) They shall come into force in the State of Gujarat on the 1st February, 1973, and in other States and Union territories on such date as the Central Government may by notification, appoint and different dates may be appointed for different States and Union territories.

2. Declaration by manufacturer of, dealer or taxidermist in, animal article etc.—Every manufacturer of, or dealer in, animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncured trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972, declare his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncured trophies, as the case may be, as on the date of such declaration to the Chief Wild Life Warden in the form given below.

FORM

[See sub-section (2) of section 44]

FORM OF DECLARATION

To

The Chief Wild Life Warden,

State of Union territory of

1. Full name and address of the manufacturer/dealer/ taxidermist making the declaration.

2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles.

- (i) Description including name of animal from which derived.
- (ii) Number.
- (iii) Dimension or weight.
- (iv) Premises where kept.

3. Actual stock held on the date of declaration in captive animals.

- (i) Species and sex.
- (ii) Number.
- (iii) Adult or Juvenile.
- (iv) Premises where kept.

4. Actual stock held on the date of declaration in trophies.

- (i) Description including specie of animal.
- (ii) Number.
- (iii) Dimension or weight.
- (iv) Premises where kept.

5. Actual stock held on the date of declaration in uncured trophies.

- (i) Description including specie of animal.
- (ii) Number.
- (iii) Dimension or weight.
- (iv) Premises where kept.

6. Remarks if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the person making declaration.

Date

Place

[No. F. 11014/5/72-FRY/WLF.]

वन्य प्राणी संरक्षण केन्द्रीय नियम, 1973

जी० ए० आर० 43(अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का नाम वन्य प्राणी (स्टांक-घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 है ।

(2) ये गुजरात राज्य में 1-2-1973 को और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे और भिन्न भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. जान्तव-वस्तु, आदि के विनिर्माता, व्यापारी या चर्मसंस्कर्ता द्वारा घोषणा .—जान्तव-वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अथवा पकड़े गए पशुओं, चर्वणांगों (ट्राफीज) या असंशोधित चर्वणांगों का प्रत्येक व्यापारी अथवा प्रत्येक चर्मसंस्कर्ता, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, मुख्य वन्य-प्राणी वाईन को, यथास्थिति जान्तव-वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं, चर्वणांगों और असंशोधित चर्वणांगों के अपने स्टॉक की घोषणा, जो ऐसी घोषणा की तारीख तक के हों, नीचे दिए गए प्रारूप में करेगा ।

प्रारूप

[धारा 44 की उपधारा (2) देखिए]

घोषणा का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य वन्य-प्राणी वाईन,

-----राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ।

1. घोषणा, करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्मसंस्कर्ता का पूरा नाम और पता ।

2. जान्तव-वस्तुओं का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक—

(1) वर्णन, जिसमें उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ है, नाम सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) विमा या भार ।

(4) परिसर, जहाँ रखा गया हो ।

3. पकड़े गए पशुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।

(1) जाति और लिंग ।

(2) संख्या ।

(3) वयस्क या किशोर ।

(4) परिसर, जहाँ रखा गया हो ।

4. चर्वणांगों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।

(1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।

(2) संख्या ।

(3) विमा या भार ।

(4) परिसर, जहाँ रखा गया हो ।

5. अवन्याधित चरवाणों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।

- (1) वर्गन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।
- (2) संख्या ।
- (3) बिम्बा या चार
- (4) परिसर, जहाँ रखा गया हो ।

6. टिप्पणियाँ, यदि कोई हों ।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख—

स्थान—

[सं. फा० 11014/5/72—एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एन० एफ०)]

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of section 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the said Act shall come into force in the State of Uttar Pradesh.

[No. F-11014/3/72-FRY/WLF.]

सा० का० नि० 44(अ).—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को ऐसी तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त होगा ।

[सं. फा० 11014/3/72-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एन० एफ०)]

THE WILD LIFE PROTECTION CENTRAL RULES, 1973

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wild Life (Stock Declaration) Central Rules, 1973.

(2) They shall come into force in the State of Uttar Pradesh on 1st February, 1973, and in other States and Union territories on such date as the Central Government may by notification, appoint and different dates may be appointed for different States and Union territories.

2. **Declaration by manufacturer of, dealer or taxidermist in, animal article etc.**—Every manufacturer of, or dealer in, animal article or every dealer in captive animals, trophies or uncured trophies or every taxidermist shall, within fifteen days from the commencement of the Wild Life (Protection) Act, 1972, declare his stocks of animal articles, captive animals, trophies and uncured trophies, as the case may be, as on the date of such declaration to the Chief Wild Life Warden in the form given below.

FORM

[See sub-section (2) of section 44]

FORM OF DECLARATION

To

The Chief Wild Life Warden,

State or Union territory of

1. Full name and address of the manufacturer/dealer/taxidermist making the declaration.

2. Actual stock held on the date of declaration in animal articles.
 - (i) Description including name of animal from which derived.
 - (ii) Number.
 - (iii) Dimension or weight.
 - (iv) Premises where kept.
3. Actual stock held on the date of declaration in captive animals.
 - (i) Species and sex.
 - (ii) Number.
 - (iii) Adult or Juvenile.
 - (iv) Premises where kept.
4. Actual stock held on the date of declaration in trophies.
 - (i) Description including specie of animal.
 - (ii) Number.
 - (iii) Dimension or weight.
 - (iv) Premises where kept.
5. Actual stock held on the date of declaration in uncured trophies.
 - (i) Description including specie of animal.
 - (ii) Number.
 - (iii) Dimension or weight.
 - (iv) Premises where kept.
6. Remarks if any.

I do hereby declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief,

Signature of the person making declaration.

Date

Place

[No. F. 11014/5/72-FRY/WLF.]

RANJITSINH, Dy. Secy.

वन प्राणी संरक्षण केन्द्रीय नियम, 1973

जी.एस.आर. 45(अ) —अन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम अन्य प्राणी (स्टॉक-घोषणा) केन्द्रीय नियम, 1973 है।

(2) ये उत्तर प्रदेश राज्य में 1-2-1973 को और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे और भिन्न भिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2—जान्तव-वस्तु, आदि के विनिर्माता, व्यापारी या चर्मसंस्कर्ता द्वारा घोषणा —जान्तव-वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यापारी अथवा पकड़े गए पशुओं, चर्वणांगों (ट्राफीज) या असंसाधित चर्वणांगों का प्रत्येक व्यापारी अथवा प्रत्येक चर्मसंस्कर्ता, अन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर, मुख्य वन्य-प्राणी वार्डन को, यथास्थिति जान्तव-वस्तुओं, पकड़े गए पशुओं, चर्वणांगों और असंसाधित चर्वणांगों के अपने स्टॉक की घोषणा, जो ऐसी घोषणा की तारीख तक के हों, नीचे दिए गए प्रारूप में करेगा।

प्रारूप

[धारा 44 की उपधारा (2) देखिए]

घोषणा का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य वन्य-प्राणी वाईन,

-----राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ।

1. घोषणा करने वाले विनिर्माता/व्यापारी/चर्मसंस्कर्ता का पूरा नाम और पता ।
2. जान्तव-वस्तुओं का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक:—
 - (1) वर्णन, जिसमें उस पशु का, जिससे प्राप्त हुआ है, नाम सम्मिलित हो ।
 - (2) संख्या ।
 - (3) बिमा या भार ।
 - (4) परिसर, जहां रखा गया हो ।
3. पकड़े गए पशुओं की घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।
 - (1) जाति और लिंग ।
 - (2) संख्या ।
 - (3) वयस्क या किशोर ।
 - (4) परिसर, जहां रखा गया हो ।
4. चर्वणांगों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।
 - (1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।
 - (2) संख्या ।
 - (3) बिमा या भार ।
 - (4) परिसर, जहां रखा गया हो ।
5. असंसाधित चर्वणांगों का, घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टॉक ।
 - (1) वर्णन, जिसमें पशु की जाति सम्मिलित हो ।
 - (2) संख्या ।
 - (3) बिमा या भार ।
 - (4) परिसर, जहां रखा गया हो ।
6. टिप्पणियां, यदि कोई हों ।

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ।

तारीख-----

स्थान-----

[सं० फा०-11014/5/72-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एल० एफ०)]

[रणजीत सिंह, उप सचिव ।